

SREELEATHERS LIMITED

CIN: L67190WB1991PLC050656

6, Tottee Lane, Kolkata-700 016

Phone No.:2286-1571, Fax: 2217-6468

Email:sreeleathers@sreeleathers.com

Website: www.sreeleathers.com

To,

BSE Limited

P.J. Towers, 1st Floor, Dalal Street,

Mumbai- 400 001

Scrip Code:535601

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai-400 051

Symbol: SREEL

The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range,

Kolkata-700 007

Scrip Code : 13328

RE: SUBMISSION OF POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED 01.04.2021 ("POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT") FOR THE BUYBACK OF FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES") BY SREELEATHERS LIMITED ("COMPANY") FROM THE OPEN MARKET ROUTE THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE SEBI (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018 ("BUYBACK REGULATIONS"), AS "AMENDED ("BUYBACK").

Dear Sir/Madam,

1. We wish to inform you that the Company has completed the Buyback of 20,00,000 Equity Shares from the shareholders of the Company (excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the Company), payable in cash via the "open market" route through the stock exchange mechanism, in accordance with the applicable laws including Sections 68, 69 and 70, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended, and the Buyback Regulations.
2. In furtherance to our letter dated 30.03.2021 informing the date of closure of the Buyback, we are pleased to inform you that in accordance with Regulation 24(vi) of the Buyback Regulations, the Company has published the Post Buyback Public Announcement on 01.04.2021 in the following newspapers:

Newspaper	Language
Financial Express	English
Jansatta	Hindi
Ekdin	Bengali

3. With respect to captioned Buyback, please find enclosed a copy of the Post Buyback Public Announcement published in the aforesaid newspapers.
4. This is for your kind record.

Thanking you,

Yours truly,

For Sreeleathers Limited,

FOR SREELEATHERS LIMITED

COMPANY SECRETARY



Date: 01.04.2021 Company Secretary

Place: Kolkata



Zensar Technologies Limited

CIN: L72200PN1963PLC012621

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, MIDC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune – 411014

Tel. No.: +91 20 6607 4000 Fax No.: +91 20 6605 7888

E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com

Notice

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, April 29, 2021, via audio-visual means, *inter alia*, to consider and approve:

- Financial Results:
 - Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Company, for the quarter ending March 31, 2021 and to take on record Limited Review Report thereon;
 - Audited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Company, for the financial year ending March 31, 2021 and to take on record Auditor's Report thereon.
- Proposal for payment of Final Dividend, for the financial year 2020-21.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and underlying Code of the Company, the Trading Window for dealing in the Securities of the Company, shall be closed from April 1, 2021 and will open 48 hours post announcement of Outcome of the Board Meeting, unless communicated otherwise.

The said Notice may be accessed on the Company's website www.zensar.com and also on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Zensar Technologies Limited

Place: Pune Date: March 31, 2021
Gaurav Tongia
Company Secretary

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874

Registered Office: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu, India. Tel: +91 44 4852 4666, Fax: +91 44 4852 5666.

Corporate Office: Wockhardt Towers, Level - 3, West Wing, C-2, G-Block, Bandra - Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel: +91 22 4095 9595 Fax: +91 22 4095 9597

Website: www.stfc.in Email: stfcricomp@stfc.in

RIGHTS ISSUE - AUGUST 2020

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS WHOSE RIGHTS EQUITY SHARES ARE LYING IN "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT"

- In terms of the Rights Issue of the Company vide Letter of Offer dated July 07, 2020 ("LOF"), the Company has kept in a separate demat account titled "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT" the Rights Equity Shares allotted to the shareholders who did not intimate a valid demat account details to the Company till the Date of Allotment of Rights Equity Shares.
- Such shareholders were required to send, within six (6) months from the Allotment Date of the Rights Equity Shares i.e. on or before February 05, 2021, a communication to the Company / KFin Technologies Private Limited, Registrar to the Rights Issue ("KFinTech"), containing the name(s), Indian address, e-mail address, contact details and details of their demat accounts along with copy of self attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by post, speed post, courier, electronic mail or hand delivery, for transfer of the Rights Equity Shares allotted to them to their respective demat accounts.
- As per the LOF, the Company has sent reminder notices to such shareholders through emails and letters by way of speed post.
- However, some shareholders have still not provided the requisite demat account details as well as the other documents as mentioned above.
- In the interest of such shareholders and considering the difficulties faced due to the COVID-19 pandemic conditions prevailing in the country, the Securities Issuance Committee of Company has decided to grant extension upto June 30, 2021 to such shareholders to submit their demat account details.
- It may kindly be noted that in case the above details are not provided on or before June 30, 2021 such Rights Equity Shares lying to the credit of the "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT" shall be sold on the floor of the stock exchanges. The proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes, administrative and incidental charges) shall be remitted to the bank account of the respective shareholders as per terms of LOF or as per the details available with the Company or Registrar. In the event of any failure to update your records with the Company or Registrar or depository participants, the Company, Registrar or any other party shall not be liable for any losses suffered. Please note that any amounts that cannot be remitted back to the shareholders for any reason shall be dealt with in accordance with applicable law.
- The concerned shareholders are requested to make note of the above and provide the requisite details immediately.

Note: Please refer to page no.427 of the LOF, including Terms of the Issue • Credit and Transfer of Rights Equity Shares in case of Shareholders holding Equity Shares in Physical Form and disposal of Rights Equity Shares for non-receipt of demat account details in a timely manner.

Shareholders may write to KFinTech at: stfc.rights@kfintech.com or Integrated Registry Management Services Private Limited at: stfcrights@integratedindia.in and to the Company at stfcricomp@stfc.in for any further assistance / clarification in this matter.

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

Place: Mumbai Date: 31/03/2021
Vivek Achwal
Company Secretary

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprurf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Multi-Asset Fund and ICICI Prudential Balanced Advantage Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on April 6, 2021*:

Name of the Schemes/Plans	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{3#}	NAV as on March 30, 2021 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Multi-Asset Fund		
Dividend	0.1600	20.4272
Direct Plan - Dividend	0.0800	29.1158
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund		
Monthly Dividend	0.07	16.20
Direct Plan - Monthly Dividend	0.07	18.31

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Schemes would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Place: Mumbai Date: March 31, 2021
Sd/-
Authorised Signatory
No. 001/04/2021

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprurf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprurf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SREELEATHERS LIMITED

(CIN: L67190WB1991PLC050656)

Registered office: 6, Tottee lane, Kolkata-700 016, West Bengal

Tel. No.: +91 33 2286 1571 | Fax No.: +91 33 2217 6468

E-Mail ID: sreeleathers@sreeleathers.com | Website: www.sreeleathers.com

Contact Person: Mr. Bijoy Kumar Roy, Company Secretary & Compliance Officer | E-Mail ID: bijoykumarroy@gmail.com

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF SREELEATHERS LIMITED

This Post Buy-back Public Announcement ("Post Buy-back PA") is published in compliance of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto ("Buy-back Regulations"). This Post Buy-back PA should be read in conjunction with the Public Announcement ("PA") published on November 26, 2020. The terms used but not defined in this Post Buy-back PA shall have the same meaning as assigned in the PA.

- The Buy-back**
 - Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act"/"Act") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 9(vi) of the Articles of Association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors of Sreeleathers Limited (the "Company") (the Board of Directors of the Company hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on November 24, 2020 (the "Board Meeting"), approved the said proposal of Buyback of the Company's fully paid-up Equity Shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) each (the "Equity Shares") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are Promoters or the persons in control of the Company (hereinafter collectively referred to as the "Promoters"/"Promoter Group"), from the Open Market through Stock Exchanges, for a total amount not exceeding ₹32,00,00,000 (Rupees Thirty Two Crores only) ("Maximum Buyback Size") and at a price not exceeding ₹160 (Rupees One Hundred and Sixty only) ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size shall not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to SEBI, advisors' fees, stock exchange fees, brokerage, applicable taxes including inter alia securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., public announcement publication expenses and other incidental and related expenses ("Transaction Costs").
 - The maximum buyback size of ₹32,00,00,000 (Rupees Thirty Two Crores only), represents 9.88% of paid-up equity capital and free reserves of the Company based on the audited financials of the Company as at March 31, 2020. The Buyback commenced on December 04, 2020 and closed on March 30, 2021. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on March 30, 2021.
 - The total number of Equity Shares bought back under the Buyback was 20,00,000 Equity Shares, out of which 19,60,896 Equity Shares have been extinguished.
- Details of Buy-back**
 - The Company bought back a total of 20,00,00 Equity Shares, utilising a sum of ₹29,22,77,750.05 (Rupees Twenty Nine Crores Twenty Two Lakhs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Fifty and Paise Five Only) (excluding Transaction Costs), which represents 91.34% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges during the Buyback. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹157.00 per Equity Share while the lowest price was ₹142.96 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at a volume weighted average price of ₹146.14 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by S W Capital Private Limited ("Company's Broker") and excludes Transaction Costs.
 - The pay-out formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 19,60,896 Equity Shares. The extinguishment of the remaining 39,104 Equity Shares bought back by the Company is currently under process.
 - All Equity Shares bought back were in the demat segment from the platform of the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.
- Capital Structure and Shareholding Pattern**
 - The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement ("Pre-Buyback") and after completion of the Buyback ("Post-Buyback") is set forth below:

Particulars	Pre-Buyback(As on the date of the Public Announcement) (In ₹)	Post-Buyback* (Post completion of the Buyback) (In ₹)
Authorised share capital	₹26,00,00,000 (2,60,00,000 Equity Shares of ₹10 each)	₹26,00,00,000 (2,60,00,000 Equity Shares of ₹10 each)
Issued, Subscribed and Paid Up Equity Share Capital*:	₹25,15,50,120 (2,51,55,012 Equity Shares of ₹10 each)	₹23,15,50,120 (2,31,55,012 Equity Shares of ₹10 each)

*Out of the total of 20,00,000 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing 39,104 Equity Shares bought back. The post-Buyback Equity Share Capital is being provided assuming extinguishment of all the Equity Shares bought back by the Company.

3.2 The Shareholding pattern of the Company as on September 30, 2020, as disclosed in the Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on March 30, 2021 ("Post-Buyback") is set forth below:

Sr. No.	Shareholder	Pre Buy-back		Post Buy-back	
		No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
A	Promoter and Promoter Group	1,67,38,824	66.54%	1,67,38,824	72.29%
B	Public	84,16,188	33.46%	64,16,188	27.71%
C	Non-Promoter - Non-Public	-	-	-	-
C1	Shares underlying DRs	-	-	-	-
C2	Shares held by Employee Trust	-	-	-	-
	TOTAL (C)	-	-	-	-
	GRAND TOTAL (A+B+C)	2,51,55,012	100.00%	2,31,55,012	100.00%

*Out of the total of 20,00,000 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing 39,104 Equity Shares bought back. The post-Buyback Equity Share Capital is being provided assuming extinguishment of all the Equity Shares bought back by the Company.

- Manager to the Buy-Back Offer**

Mark Corporate Advisors Private Limited
CIN:U67190MH2008PTC181996
404/1, The Summit Business Bay, Sant Janabai Road (Service Lane), Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400 057.
Contact Person: Mr. Manish Gaur
Tel. No.: +91 22 2612 3207/08
Email: buyback@markcorporateadvisors.com
SEBI Regn No.: INM000012128
- Directors' Responsibility**

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for all the information contained in this Post Buy-back PA and confirm, that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on Behalf of Board of Directors of Sreeleathers Limited

Sd/-
Satyabrata Dey
DIN: 00569965
Managing Director

Sd/-
Shipra Dey
DIN: 00570021
Whole Time Director

Sd/-
Bijoy Kumar Roy
Company Secretary

Place: Kolkata Date: March 31, 2021

L&T Mutual Fund
6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
C. S. T. Road, Kalina
Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400
email investor.line@lntmf.co.in
website www.ltfs.com

L&T Financial Services Mutual Fund

Notice-cum-Addendum (No. 58 of F.Y. 2020 - 2021)

Designation of Chief Information Security Officer as Key Personnel of L&T Investment Management Limited:

Notice is hereby given that in reference to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2021/024 dated March 04, 2021, the following official of L&T Investment Management Limited ("LTIM") have been designated as "Key Personnel" of LTIM, with immediate effect.

Pursuant to the above, the following details shall be included under "Information on Key Personnel" in the Statement of Additional Information (SAI) of L&T Mutual Fund:

Name/ Designation	Age/ Qualification	Brief Experience
Mr. Jawed Akhtar (Chief Information Security Officer (CISO))	Age: 38 years Qualification: BSC-IT	Mr. Jawed Akhtar has 13 years of experience in the IT and Information Security sector. Mr. Akhtar has joined LTIM in Sep 2020 and is responsible for managing overall Information Security of LTIM (Network Security, Application Security and Endpoint Security). He is also responsible for security governance, IT & security policies, access management etc. He has been associated with L&T Financial Services Group since December 2018, wherein he is also responsible for the abovementioned functions for L&T Financial Services Group. Prior to joining L&T Financial Services, his previous assignments held during last 10 years were as below: <ul style="list-style-type: none"> Orient Technologies Ltd (Jan 04, 2018 – Nov 30, 2018) – Handling functions pertaining to Information Security like managing the organization network & security, endpoint security internet security, AV, security patching. Net Connect Pvt Ltd (Dec 10, 2014 - Dec 15, 2017) – Handling functions pertaining to Information Security like IT infra & network security and perform yearly IT security audits. IMSI India Pvt LTD (Apr 01, 2013 – Dec 09, 2014) - Handling functions pertaining to Information Security like IT infra security and managing network and core devices. inTarvo Technologies Ltd (June 01, 2010 – Mar 31, 2013) - Handling functions pertaining to IT & Network, Security Operation and managing network & core devices

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SAI of L&T Mutual Fund as applicable.

All other terms and conditions of the SAI will remain unchanged.

Investors are requested to take note of the above.

Date : March 31, 2021
Place: Mumbai

For L&T Investment Management Limited
(Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Data breach allegations: RBI orders forensic audit of Mobikwik systems

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, March 31

THE RESERVE BANK has asked troubled digital wallet firm Mobikwik, which is facing data breach allegations, to get forensic audit done without any delay. Though the Gurugram-based firm has been claiming that its systems are secure and that there is no basis to the allegations of data breach, a group of hackers on Tuesday said they accessed personal and financial data of nearly 10 crore Mobikwik customers.

On Wednesday, sources in the know of the development told PTI that the RBI has ordered an immediate forensic audit of the company's systems by a certified auditor.

When contacted, an RBI spokesperson refused to comment. Mobikwik refused to give a direct answer to a query on whether the RBI has ordered a forensic audit. "We take privacy and security of our user data seriously and are working with authorities to conduct an independent forensic audit," it said.

However, sources said the RBI has asked Mobikwik to get the forensic audit done without any delay to ascertain whether there was a data breach or not.

Aavas founder is 'EY Entrepreneur of the Year' in fin services category

SUSHIL KUMAR AGARWAL, founder, MD and CEO of Aavas Financiers, was conferred with the EY (Ernst and Young) Entrepreneur of the Year 2020 award in the Financial Services category. The award ceremony was held virtually on March 25.

The EY Entrepreneur Of The Year™ Awards is the only global business award programme in the world, which is celebrated across 60 countries. Now, in its 22nd year in India, it recognises the unstoppable entrepreneurs who, with their innovation, resilience and boldness, are positively impacting lives. Harsh C Mariwala, chairman, Marico, was named the EY Entrepreneur of the Year™ 2020. Mukesh Ambani gave the keynote speech at the ceremony. —FE BUREAU

खबर कोना



वेनई में आइपीएल के अभ्यास सत्र के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए युजवेंद्र चहल।

ब्रेथवेट के शतक से वेस्ट इंडीज मजबूत स्थिति में

नॉर्थ साउंड (एंटीगा) 31 मार्च (एपी)।

कप्तान क्रम ब्रेथवेट के नौवें टेस्ट शतक की मदद से वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन अपना पलाड़ भारी रखा। ब्रेथवेट ने 99 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उन्हें जुलाई 2018 के बाद अपने पहले शतक तक पहुंचने के लिए दूसरे दिन केवल दो गेंद की जरूरत पड़ी। उन्होंने सुरंगा लखनल की दूसरी गेंद फाइन लेग की तरफ खेल कर वेस्ट इंडीज के शतक के रूप में अपना पहला शतक पूरा किया। ब्रेथवेट दिन का खेल समाप्त होने के बाद 99 रन पर नाबाद रहने वाले 16वें बल्लेबाज हैं। इन सभी ने अगले दिन शतक पूरा किया। ब्रेथवेट ने 311 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 126 रन बनाए।

मामले बढ़ने के कारण जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्थगित

नई दिल्ली, 31 मार्च (भाषा)।

देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह टूर्नामेंट तीन से 12 अप्रैल के बीच झारखंड के सिमडेगा में खेला जाना था। राज्य सरकार और सिमडेगा के जिला आयुक्त के निर्देशों के बाद हॉकी इंडिया ने चैंपियनशिप स्थगित करने का निर्णय किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोमबाम ने बयान में कहा, 'कोविड-19 के बढ़ते मामलों और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के बाद हॉकी इंडिया ने मेजबान हॉकी झारखंड से विचार विमर्श किया। इसके बाद 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 को स्थगित करने का निर्णय किया गया।'

रण स्टार रिखी राम क्रिकेट के फाइनल में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 मार्च।

रण स्टार क्लब ने सितारे खिलाड़ियों से सजी हरियाणा अकादमी को 37 रनों से पराजित कर पहले रिखी राम मेमोरियल केश प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। अंकित रेड्डू की घातक गेंदबाजी, राजी खिलाड़ी अभिषेक गोस्वामी की विस्फोटक पारी, वरुण पहाड़िया और आदित्य शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत रण स्टार ने जीत दर्ज की। अंकित रेड्डू को मैन ऑफ द मैच और अभिषेक गोस्वामी को मैच चेंजर प्लेयर का पुरस्कार रोकेश सैनी ने प्रदान किया। हरियाणा अकादमी के लिए हरमन सिंह और अवनीश सुधा ने तीन-तीन विकेट लिए।

क्वालीफायर

बेल्जियम और नीदरलैंड ने भी लहराया जीत का परचम

रोनाल्डो ने पुर्तगाल को दिलाई जीत

मैड्रिड, 31 मार्च (एपी)।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल दाग कर पुर्तगाल को लक्समबर्ग पर 3-1 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बेल्जियम और नीदरलैंड ने विश्व कप फुटबॉल क्वालीफाईंग मैचों में बड़ी जीत दर्ज की।

बेल्जियम ने बेलारूस को 8-0 से रौंद कर गुप ई में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। दूसरी तरफ नीदरलैंड ने जिब्राल्टर को 7-0 से करारी शिकस्त दी और वह गुप जी में तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर है।

आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले लक्समबर्ग ने पुर्तगाल के खिलाफ बढ़त हासिल करके एक और उलटफेर की उम्मीद जगाई थी। पुर्तगाल ने हालांकि डिगो जोल्टा, रोनाल्डो और जाओ पालिन्हा के गोल की मदद से गुप ए में सर्बिया के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। सर्बिया ने एक अन्य मैच में अजरबैजान को 2-1 से हराया।

तुर्की ने लाटविया के खिलाफ अपना मैच 3-3 से ड्रा खेला। तुर्की की तरह रूस भी लगातार तीसरी जीत दर्ज करने में असफल रहा। उसे स्लोवाकिया ने 2-



आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले लक्समबर्ग ने पुर्तगाल के खिलाफ बढ़त हासिल करके एक और उलटफेर की उम्मीद जगाई थी। पुर्तगाल ने हालांकि डिगो जोल्टा, रोनाल्डो और जाओ पालिन्हा के गोल की मदद से गुप ए में सर्बिया के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा।

1 से पराजित किया। रूस अब गुप एच में क्रोएशिया के

साथ शीर्ष पर है। क्रोएशिया ने एक अन्य मैच में माल्टा को 3-0 से शिकस्त दी।

साइप्रस ने स्लोवानिया को 1-0 से हरा कर गुप में अपनी पहली जीत दर्ज की।

जापान

ने मंगोलिया को रौंदा

तोक्वो, 31 मार्च (एपी)।

जापान ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया को 14-0 से हराया। यह उसकी दूसरे चरण में पांचवीं जीत है।

जापान ने पहले हॉफ में पांच गोल किए और दूसरे हॉफ में नौ गोल दागे। वह गुप एफ में 15 अंकों के साथ शीर्ष पर है। जून में म्यांमा पर जीत से उसका गुप में शीर्ष स्थान और एशियाई क्वालीफाईंग के तीसरे चरण में जगह सुरक्षित हो जाएगी। गुप चरण के आठ विजेता और दूसरे स्थान की चार सर्वश्रेष्ठ टीमें अगले चरण में जगह बनाएंगी।

बार्टी व मेदवेदेव सेमी फाइनल में

मियामी ओपन

रूस के आंद्रे रुबलेव ने मारिन सिलिच को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी।



मियामी, 31 मार्च (एपी)।

विश्व की नंबर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश बार्टी ने आखिरी नौ अंक हासिल करके मियामी ओपन टैनिंस टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमी फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीय दानिल मेदवेदेव ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अंतिम चार

में जगह बनाई। बार्टी ने सातवीं वरीयता प्राप्त आर्यना सवालेंका को 6-4, 6-7 (5), 6-3 से हराया। यह पिछले चार मैचों में तीसरा अवसर है जबकि उन्होंने तीन सेट में जीत दर्ज की। मेदवेदेव ने हालांकि फ्रांसिस टिफोड को आसानी 6-4, 6-3 से पराजित किया। अमेरिका के सेबेस्टियन

कोर्डो ने पांचवीं वरीयता प्राप्त अजेंटीना की खिलाड़ी डिगो श्वार्टजमैन को 6-3, 4-6, 7-5 से हरा कर उलटफेर किया। एक अन्य मैच में रूस के आंद्रे रुबलेव ने मारिन सिलिच को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में बार्टी सेमी फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त इलिना स्वितोल्सना से भिड़ेंगी जिन्होंने अनास्टेसिया सेवास्तोवा को 6-3, 6-2 से हराया। जॉन इसनर ने एक मैच प्वाइंट गंवैया और आखिर में राबर्टो बातिस्ता आगुट ने उन्हें 6-3, 4-6, 7-6 (7) से पराजित किया। सेमी फाइनल में मेदवेदेव और आगुट आमने सामने होंगे।

आइपीएल

नौ अप्रैल को मुंबई-आरसीबी के बीच मुकाबला

कमजोर स्पिन पक्ष मुंबई के लिए परेशानी का सबब

मुंबई, 31 मार्च (भाषा)।

'कप्तानी से पंत के खेल में निखार आएगा'

मियामी, 31 मार्च (भाषा)।

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिचो पोंटिंग को विश्वास है कि आइपीएल के

आगामी सत्र में टीम की अगुआई करने पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के खेल में और निखार आएगा। पोंटिंग ने ट्वीट किया, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस

मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं : हरभजन

नई दिल्ली, 31 मार्च (भाषा)।

भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि वह इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वह खेलना चाहते हैं और उन्हें किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हरभजन इस साल कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेलेंगे। हरभजन ने कहा, 'कई लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों खेल रहा है। अरे भाई ये उनकी सोच है मेरी नहीं। मेरी सोच है कि मैं अभी खेल सकता हूँ तो मैं खेलूंगा।'

आर्चर का खेलना मुश्किल

लंदन, 31 मार्च (भाषा)।

इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर उंगली के ऑपरेशन के बाद दो सप्ताह 'रिहैबिलिटेशन' पर रहेंगे। उसके बाद ही नेट अभ्यास शुरू कर सकेंगे। इससे आइपीएल में उनका खेल पाना संभव नहीं लग रहा।

अन्य टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे लेकिन ऋषभ पंत इसका कैसे फायदा उठाते हैं वह देखने के लिए उत्सुक हूँ। अपने हाल के प्रदर्शन के कारण वह इसके हकदार थे और वह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कप्तानी उन्हें और बेहतर खिलाड़ी बनाएगी।

'हमारे स्पिन विभाग को मजबूत करेंगे हरभजन'

कोलकाता, 31 मार्च (भाषा)।

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयोन मोगन ने बुधवार को कहा कि लीग में चेन्नई की धीमी पिचों को ध्यान में रखते हुए हरभजन की मौजूदगी से स्पिन विभाग मजबूत होगा। केकेआर के कप्तान ने कहा, 'हरभजन को हमारी टीम से जोड़ने से हमारी टीम मजबूत हुई है। जब आप हमारे स्पिन विभाग को पूर्ण रूप से देखेंगे तो यह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ में से एक है और यह तथ्यात्मक है।'

कोहली शीर्ष स्थान पर कायम, बुमराह चौथे स्थान पर खिसके

दुर्ग, 31 मार्च (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली बुधवार को आइसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की सूची में एक पायदान

खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गए।

कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में क्रमशः 56 और 66 रन की पारियां खेली थीं जिससे उनके 870 अंक हो गए हैं। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेले थे जिससे वह एक

पायदान खिसक गए और गेंदबाजों की सूची में 690 अंक से चौथे स्थान पर पहुंच गए। भारतीय सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। वह पाकिस्तान के बाबर आजम से पीछे हैं जबकि लोकेश राहुल 31वें से 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

SREELEATHERS LIMITED

(CIN: L67190WB1991PLC050656)

Registered office: 6, Tottee lane, Kolkata-700 016, West Bengal
Tel. No.: +91 33 2286 1571 | Fax No.: +91 33 2217 6468
E-Mail ID: sreeleathers@sreeleathers.com | Website: www.sreeleathers.com
Contact Person: Mr. Bijoy Kumar Roy, Company Secretary & Compliance Officer | E-Mail ID: bijoykumarroy@gmail.com

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF SREELEATHERS LIMITED

This Post Buy-back Public Announcement ("Post Buy-back PA") is published in compliance of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto ("Buy-back Regulations"). This Post Buy-back PA should be read in conjunction with the Public Announcement ("PA") published on November 26, 2020. The terms used but not defined in this Post Buy-back PA shall have the same meaning as assigned in the PA.

- The Buy-back**
 - Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act"/"Act") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 9(vi) of the Articles of Association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors of Sreeleathers Limited (the "Company") (the Board of Directors of the Company hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on November 24, 2020 (the "Board Meeting"), approved the said proposal of Buyback of the Company's fully paid-up Equity Shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) each (the "Equity Shares") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are Promoters or the persons in control of the Company (hereinafter collectively referred to as the "Promoters"/"Promoter Group") from the Open Market through Stock Exchanges, for a total amount not exceeding ₹32,00,00,000 (Rupees Thirty Two Crores only) ("Maximum Buyback Size") and at a price not exceeding ₹160 (Rupees One Hundred and Sixty only) ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size shall not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filling fees payable to SEBI, advisors' fees, stock exchange fees, brokerage, applicable taxes including inter alia securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., public announcement publication expenses and other incidental and related expenses ("Transaction Costs").
 - The maximum buyback size of ₹32,00,00,000 (Rupees Thirty Two Crores only), represents 9.88% of paid-up equity capital and free reserves of the Company based on the audited financials of the Company as at March 31, 2020. The Buyback commenced on December 04, 2020 and closed on March 30, 2021. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on March 30, 2021.
 - The total number of Equity Shares bought back under the Buyback was 20,00,000 Equity Shares, out of which 19,60,896 Equity Shares have been extinguished.
- Details of Buy-back**
 - The Company bought back a total of 20,00,00 Equity Shares, utilising a sum of ₹29,22,77,750.05 (Rupees Twenty Nine Crores Twenty Two Lakhs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Fifty and Paise Five Only) (excluding Transaction Costs), which represents 91.34% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges during the Buyback. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹157.00 per Equity Share while the lowest price was ₹142.96 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at a volume weighted average price of ₹146.14 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by S W Capital Private Limited ("Company's Broker") and excludes Transaction Costs.
 - The pay-out formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 19,60,896 Equity Shares. The extinguishment of the remaining 39,104 Equity Shares bought back by the Company is currently under process.
 - All Equity Shares bought back were in the demat segment from the platform of the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.
- Capital Structure and Shareholding Pattern**
 - The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement ("Pre-Buyback") and after completion of the Buyback ("Post-Buyback") is set forth below:

Particulars	Pre-Buyback(As on the date of the Public Announcement) (In ₹)	Post-Buyback* (Post completion of the Buyback) (In ₹)
Authorised share capital	₹26,00,00,000 (2,60,00,000 Equity Shares of ₹10 each)	₹26,00,00,000 (2,60,00,000 Equity Shares of ₹10 each)
Issued, Subscribed and Paid Up Equity Share Capital*	₹25,15,50,120 (2,51,55,012 Equity Shares of ₹10 each)	₹23,15,50,120 (2,31,55,012 Equity Shares of ₹10 each)

*Out of the total of 20,00,000 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing 39,104 Equity Shares bought back. The post-Buyback Equity Share Capital is being provided assuming extinguishment of all the Equity Shares bought back by the Company

- The Shareholding pattern of the Company as on September 30, 2020, as disclosed in the Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on March 30, 2021 ("Post-Buyback") is set forth below:

Sr. No.	Shareholder	Pre Buy-back		Post Buy-back*	
		No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
A	Promoter and Promoter Group	1,67,38,824	66.54%	1,67,38,824	72.29%
B	Public	84,16,188	33.46%	64,16,188	27.71%
C	Non-Promoter - Non-Public	-	-	-	-
C1	Shares underlying DRs	-	-	-	-
C2	Shares held by Employee Trust	-	-	-	-
	TOTAL (C)	-	-	-	-
	GRAND TOTAL (A+B+C)	2,51,55,012	100.00%	2,31,55,012	100.00%

*Out of the total of 20,00,000 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing 39,104 Equity Shares bought back. The post-Buyback Equity Share Capital is being provided assuming extinguishment of all the Equity Shares bought back by the Company.

- Manager to the Buy-Back Offer**

Mark Corporate Advisors Private Limited
CIN: U67190MH2008PTC181996
404/1, The Summit Business Bay, Sant Janabai Road (Service Lane),
Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400 057.
Contact Person: Mr. Manish Gaur
Tel. No.: +91 22 2612 3207/08
Email: buyback@markcorporateadvisors.com
SEBI Regn No.: INM000012128
- Directors' Responsibility**
As per Regulation 24(ii)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for all the information contained in this Post Buy-back PA and confirm, that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on Behalf of Board of Directors of Sreeleathers Limited

<p>Sd/- Satyabrata Dey DIN: 00569965 Managing Director</p>	<p>Sd/- Shipra Dey DIN: 00570021 Whole Time Director</p>
<p>Sd/- Bijoy Kumar Roy Company Secretary</p>	

Place: Kolkata Date: March 31, 2021

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 38, अंक 134, हवाई शुल्क: इफल-पांच रूप्य, गुवाहाटी-चार रूप्य, रायपुर-दो रूप्य और पटना-एक रूप्य।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. महोत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, चहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754. बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कार्यालय: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बिना प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

